



खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार

- शिकायत हेतु अनुरोध
- शिकायत स्थिति जानकारी
- आपके सुझाव
- प्रतिनिधि लॉगिन
- अधिकारी लॉगिन

टोल फ्री नंबर- 1800-212-5512 & 1967, सुबह १० से शाम ५ बजे (सोमवार से शनिवार)



श्री हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (PGMS)

झारखण्ड सरकार आपके द्वार

जनहित में कॉल सेंटर के माध्यम से लागू की गई PGMS योजना में राज्य की जनता, निम्न विषयों से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है।

- PHH / AAY कार्ड बनवाने एवं नाम जुड़वाने से संबंधित
- सफेद कार्ड बनवाने, नाम जुड़वाने एवं रद्द करवाने से संबंधित
- रीम कार्ड बनवाने एवं नाम जुड़वाने के संबंध से संबंधित
- विभागीय NIC पोर्टल से संबंधित
- बायोमेट्रिक मशीन (e-pos) से संबंधित
- राशन कार्ड की प्रविष्टियों में सुधार से संबंधित
- DBTK से राशि प्राप्त नहीं होने के संबंध में
- माप - तौल से संबंधित
- धान अधिप्राप्ति से संबंधित

राज्य के नागरिक निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क कर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते है।

Toll-Free No
1967 & 1800-212-5512

Email
pgms@dfcajharkhand.in



श्री इरफान अंसारी
मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता

Public Grievance Management System (PGMS)

Brochure

Powered by



आप **Public Grievance Management System(PGMS)** / लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली में <https://dfcajharkhand.in> के माध्यम से विजिट कर सकते हैं।

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार

1800-212-5512 & 1967 | pgms@dfcajharkhand.in

मुख्य पृष्ठ हिंदी English

शिकायत हेतु अनुरोध शिकायत स्थिति जानकारी आपके सुझाव प्रतिनिधि तागिन अधिकारी लॉगिन

दोत फ्री नंबर- 1800-212-5512 & 1967, सुबह ९० से शाम ५ बजे (सोमवार से शनिवार)

लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (PGMS)

झारखण्ड सरकार आपके द्वार

जनहित में कॉल सेंटर के माध्यम से लागू की गई PGMS योजना में राज्य की जनता, निम्न विषयों से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है।

PHH / AAY कार्ड बनवाने एवं नाम सुधारने से संबंधित	सप्लाइ कार्ड बनवाने, नाम सुधारने एवं रद्द करवाने से संबंधित	रीन कार्ड बनवाने एवं नाम सुधारने से संबंधित
विभागीय NAC चेंबर से संबंधित	बायोमेट्रिक एप्लीकेशन से संबंधित	राशन कार्ड की प्रतिक्रिया में सुधार से संबंधित
DBTK में राशन प्राप्त नही होने के सम्बन्ध में	मांग - तील से संबंधित	बहन अधिप्रापि से संबंधित
परिवहिकारी के विरुद्ध शिकायत	डीलर के विरुद्ध शिकायत	डीलर द्वारा दूध की गयी शिकायत
राशन कार्डधारियों को राशन की कमी से संबंधित	AAV/PHH राशन कार्ड रद्द करने के सम्बन्ध में	राशन कार्डधारियों अथवा अनाथ से संबंधित
DSO सुझावों के विरुद्ध	एक राहु एक राशन कार्ड योजना से संबंधित	राशन कार्डधारियों से राशनगृही मिलने के सम्बन्ध में
बोली सही योजना से संबंधित	दल - भात योजना से संबंधित	राशन डोर से संबंधित सेवाएँ पर SMS आने के संबंध में
मुख्यमंत्री पेट्रोल सप्लिटी योजना से संबंधित	डिजिटल भ्रम मास्क पत्र से संबंधित शिकायत	कॉन्टिक्ट नंबर बदल से संबंधित

राज्य के नागरिक निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क कर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते है।

Toll-Free No: 1967 & 1800-212-5512

Email: pgms@dfcajharkhand.in

896-958-3111

Website: pgms.dfcajharkhand.in

Public Grievance Management System (PGMS)

श्री हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखण्ड

श्री इरफान अंसारी, मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार

मुख्य पृष्ठ पर यूजर के सुविधानुसार टॉप मार्जिन में दाहिने/right तरफ दिया गया मेनू निम्नवत है –

- ◆ **Home (मुख्य पृष्ठ):** Home Link पर क्लिक करके आप मुख्य पृष्ठ पर जा सकते हैं।
- ◆ **English (अंग्रेजी):** English Link पर क्लिक करके आप English Language में पेज open कर सकते हैं।
- ◆ **Hindi (हिंदी):** Hindi Link पर क्लिक करके आप Hindi Language में पेज open कर सकते हैं।
- ◆ **Officer Login (अधिकारी लॉग इन):** Officer Login /अधिकारी लॉग इन पर क्लिक करके यूजर अपने User ID एवं password के माध्यम से लॉग इन कर सकते हैं।

कैसे करें ऑनलाइन शिकायत :

सर्वप्रथम <https://dfcajharkhand.in> पर जाएं और वहां “Register Grievance / शिकायत करें” आप्शन पर क्लिक करें।

1800-212-5512 & 1967 | pgms@dfcajharkhand.in

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार

शिकायत हेतु अनुरोध

शिकायत स्थिति जानकारी

आपके सुझाव

प्रतिनिधि तालिम

अधिकारी सांगिन

दोस प्रती नंबर- 1800-212-5512 & 1967, सुबह १० से शाम ५ बजे (सोमवार से रविवार)

लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (PGMS)

झारखण्ड सरकार आपके द्वार

जनहित में कॉल सेंटर के माध्यम से लागू की गई PGMS योजना में राज्य की जनता, निम्न विषयों से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है।

PHM / AAV कार्ड बनवाने एवं कार्ड जुड़वाने से संबंधित	सर्किल कार्ड बनवाने, नाम जुड़वाने एवं रद्द करवाने से संबंधित	वीन कार्ड बनवाने एवं नाम जुड़वाने के संबंध से संबंधित
विभागीय BIC पोर्टल से संबंधित	बायोमेट्रिक मशीन (e-PoS) से संबंधित	रेशन कार्ड की प्रक्रिया में खूबा से संबंधित
DBTK से गति प्राप्त नहीं होने के संबंध में	घात - वीन से संबंधित	घान अधिप्राप्ति से संबंधित
पदाधिकारी के विरुद्ध शिकायत	शूल के विरुद्ध शिकायत	श्रीलंका दर्ज की गयी शिकायत
रेशन कार्डधारियों को रेशन की कमी से संबंधित	AAV/PHM राशन कार्ड रद्द करने के संबंध में	रेशन कार्डधारियों अन्न का अभाव से संबंधित
DSD टर्नपेटर के विरुद्ध	एक सप्ताह रेशन कार्ड योजना से संबंधित	रेशन कार्डधारियों को रेशन नहीं मिलने के संबंध में
मोती सौदी योजना से संबंधित	दात - मात योजना से संबंधित	रेशन डोर से संबंधित मेधाइन पर SMS अने के संबंध में
मुख्यमंत्री पेट्रोल सब्सिडी योजना से संबंधित	डिजिटल पार साक्षर बच से संबंधित शिकायत	फोटोफाइल वालर से संबंधित

राज्य के नागरिक निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क कर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते है।

Toll-Free No 1967 & 1800-212-5512

Email pgms@dfcajharkhand.in

SMS 896-958-3111

Website pgms.dfcajharkhand.in

Public Grievance Management System (PGMS)

श्री हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

श्री इरफान अंसारी
मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता
मामले विभाग, झारखण्ड सरकार

“Register Grievance / शिकायत करें” आप्शन पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, उसमे आप अपना **10 अंको का मोबाइल नंबर भरकर “Verify Mobile Number / मोबाइल नंबर सत्यापित करें”** बटन पर क्लिक करें।



टोल फ्री नंबर- 1800-212-5512 & 1967, लैंडलाइन नंबर -0651-712-2723, सुबह १० से शाम ५ बजे (सोमवार से शनिवार)

अपनी शिकायत दर्ज करें

स्क्रीन पर नीचे लिखे विवरण का पालन करें :



मोबाइल नंबर



ओटीपी से सत्यापित करें



शिकायत विवरण



शिकायत पंजीकृत

मोबाइल नंबर *

Contact Number

मोबाइल नंबर सत्यापित करें

“Verify Mobile Number / मोबाइल नंबर सत्यापित करें” पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर चार अंकों का OTP आएगा, जिसे आप सामने खुले हुए “Verify With OTP” फॉर्म में भरेंगे और “Verify OTP” पे क्लिक करेंगे।

The screenshot shows a web browser window with the URL `pgms.dfcajharkhand.in/index.php/request#`. The page header includes the text "क शिकायत प्रबंधन प्रणाली में आपका स्वागत है" and navigation links for "मुख्य पृष्ठ", "हिंदी", and "English". The main heading is "खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग" and "झारखण्ड सरकार". A modal window titled "Verify With OTP" is displayed in the center. It contains the following text: "A one time password(OTP) has been sent to your registered mobile. please check your inbox / आपके पंजीकृत मोबाइल पर OTP भेजा गया है। कृपया अपना इनबॉक्स चेक करें" and "OTP". Below this is an input field labeled "Enter OTP". Further down, it says "Have not got the OTP? / क्या OTP नहीं मिला है?" and a button "Resend OTP / OTP को पुनः भेजें" with a timer of "00:54". At the bottom of the modal are two buttons: "Close" and "Verify OTP". A red arrow points to the "Verify OTP" button. The background page shows a "मोबाइल नंबर" section with a phone icon and a "मोबाइल नंबर सत्यापित करें" button. The mobile number "7633928444" is entered in a field. The footer of the page says "Powered by Baba Computers. Technical Support- +91-551-712-2800".

“Verify OTP” पे क्लिक करते ही आपके सामने **“Register Your Grievance / अपनी शिकायत दर्ज करें”** फॉर्म खुलेगा जिसमे आप मांगी गई सभी जानकारी भरें | जिस आप्शन में स्टार मार्क (*) किया हुआ है , उसे भरना अनिवार्य है | सभी जानकारी भरने के उपरांत **“Submit Request / सबमिट करें”** बटन पर क्लिक करें |

टोल फ्री नंबर - 1800-212-5512 & 1967, लैटलाइन नंबर -0651-712-2723, सुबह १० से शाम ५ बजे (सोमवार से शनिवार)

स्क्रीन पर नीचे लिखे विवरण का पालन करें :

मोबाइल नंबर • 7633028444

नाम • sneha

ईमेल पता • sneha.kumar@babacomputers.in

आधार कार्ड नंबर • UID Number

लिंग • Male Female

ज़िले • X Y Z

विवरण • Test Complaint

विवरण • test

आपको पोटल की जानकारी कहां से मिली • Other

विभाग • Select department

जिला • Select District

ब्लॉक • Select Block

पंचायत • Select Panchayat

सहायक छवि / आडियो • Choose File No file chosen

अधिक जानकारी • test

कैसा अंकित करें • 7262

सबमिट करें | वेरिफ़ाई करें

अपनी शिकायत दर्ज करें

स्क्रीन पर नीचे लिखे विवरण का पालन करें :

मोबाइल नंबर

ओटीपी से सत्यापित करें

शिकायत विवरण

शिकायत प्रेषित

आपका अनुरोध क्रमिक 2 सरलतापूर्वक चक्रित किया गया है।

“Submit Request / सबमिट करें” क्लिक करते ही आपकी शिकायत के संदर्भ में **Acknowledgement No.**, sms के माध्यम से आपके मोबाइल नंबर पर आपको मिलेगा | जैसे ही आपका **Acknowledgement No.** नोडल टीम द्वारा अप्रूव किया जाएगा, तब आपको आपकी शिकायत के संदर्भ में " शिकायत संख्या" sms के माध्यम से प्राप्त होगी

अपनी दर्ज की गयी शिकायत की स्थिति जानने के लिए **“Track Grievance”** बटन पर क्लिक करें।

1800-212-5512 & 19671 | pgms@dfcajharkhand.in

गूगल गूगल हिंदी English

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार

शिकायत हेतु अनुरोध शिकायत स्थिति जानकारी आपके सुझाव प्रतिनिधि लॉगिन अधिकारी लॉगिन

टोल फ्री नंबर- 1800-212-5512 & 1967, सुबह १० से शाम ५ बजे (सोमवार से शनिवार)

लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (PGMS)

झारखण्ड सरकार आपके द्वार

जनहित में कॉल सेंटर के माध्यम से लागू की गई PGMS योजना में राज्य की जनता, निम्न विषयों से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं।

PHH / AAY कार्ड बनाने एवं नया नुसलाने से संबंधित	संकेत कार्ड बनवाने, नाम गलत होने एवं रद्द करवाने से संबंधित	सैन कार्ड बनाने एवं नया नुसलाने के संबंध से संबंधित
विभागीय MLC पोर्टल से संबंधित	बयोमेट्रिक मशीन (e-pos) से संबंधित	राशन कार्ड की प्रतिक्रिया से संबंधित
DSTK से रकम प्राप्त नहीं होने के सम्बन्ध में	माप - तौल से संबंधित	मान अतिप्राप्ति से संबंधित
पदाधिकारी के विरुद्ध शिकायत	शौच के विरुद्ध शिकायत	श्रीमर द्वारा दर्ज की गयी शिकायत
राशन कार्डधारियों को राशन की कमी से संबंधित	AAV/PMH राशन कार्ड रद्द करने के सम्बन्ध में	राशन कार्डवैधिन अन्न का अभाव से संबंधित
050 तुलसीदास के विरुद्ध	एक राहु एक राशन कार्ड योजना से संबंधित	राशन कार्डधारियों को राशन नहीं मिलने के सम्बन्ध में
श्रीमती साहू योजना से संबंधित	दान - भोज योजना से संबंधित	राशन उठाव से संबंधित मोबाइल पर SMS आने के संबंध में
मुजसकी पैटल समिती योजना से संबंधित	डिजिटल भंडारण एवं उपभोक्ता मामले से सम्बंधित शिकायत	कोर्ट/कानून बाल से संबंधित

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले से सम्बंधित अन्य शिकायतें

राज्य के नागरिक निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क कर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

Toll-Free No 1967 & 1800-212-5512

Email pgms@dfcajharkhand.in

SMS 896-958-3111

WebSite pgms.dfcajharkhand.in

Public Grievance Management System (PGMS)

श्री हेमन्त सोरेन मुख्यमंत्री, झारखण्ड

श्री इरफ़ान अंसारी मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार

PGMS पोर्टल की अभूतपूर्व उपलब्धियों की गैलरी

बधाई व शुभकामनाएं...!!

यहाँ आप अपना “**शिकायत संख्या / Grievance No**, मोबाइल नंबर / **Mobile No.**” एवं आपके Screen पर दिए गये “**Captcha Word**” भरें एवं “**ट्रैक शिकायत / Track Grievance**” बटन पर क्लिक करें।



टोल फ्री नंबर- 1800-212-5512 & 1967, लैंडलाइन नंबर -0651-712-2723, सुबह १० से शाम ५ बजे (सोमवार से शनिवार)

अपनी शिकायत की वर्तमान स्थिति को ट्रैक करें

शिकायत स्थिति चुनें

Just Acknowledged Grievance Accepted

संख्या *

1

मोबाइल नंबर *

7061663016

कैप्चा अंकित करें *

3404

6 6 6 1

ट्रैक शिकायत

"ट्रैक शिकायत" बटन पर क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे वेरीफाई OTP का पेज खुलेगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पे sms के माध्यम से आपको प्राप्त 4 अंकों का otp यहाँ भरकर, "verify otp" बटन पर क्लिक करें।

The screenshot shows the DF&CA portal interface. At the top, there is a navigation bar with the text "ईधन प्रणाली में आपका स्वागत है" and language options for "मुख पृष्ठ", "हिंदी", and "English". The main header features the logo of the Department of Public Grievances and the text "खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार". Below this, there are icons for "शिकायत करे", "शिकायत स्थिति जानकारी", "आपके सुझाव", and "अधिकारी लॉगिन". A blue banner at the top right displays the toll-free number "टोल फ्री नंबर- 1800-212-5512".

The main content area is titled "अपनी शिकायत की वर्तमान स्थिति" and "शिकायत स्थिति चुनें". It contains a form with fields for "संख्या * DF&CA- 156005" and "कैप्चा अंकित करें * 8876". A "ट्रैक शिकायत" button is visible below the form.

A modal window titled "Verify With OTP" is overlaid on the page. It contains the text: "A one time password(OTP) has been sent to your registered mobile. please check your inbox / आपके पंजीकृत मोबाइल पर OTP भेजा गया है। कृपया अपना इनबॉक्स चेक करें". Below this text is an input field for the OTP. A red arrow points from the "ट्रैक शिकायत" button to the "Verify OTP" button in the modal. The modal also includes a "Close" button and a "Have not got the OTP? / क्या OTP नहीं मिला है?" link with a "Resend OTP / OTP को पुनः भेजें" button and a timer showing "00:57".

ट्रैक शिकायत पर क्लिक करने के के पश्चात आपके सामने यह स्क्रीन खुलेगी । यहाँ आप अपनी शिकायत पर प्रतिक्रिया देने के लिए "अपना स्पष्टीकरण जोड़ें " / "Add Your Clarification " बटन पर क्लिक करें।



टोल फ्री नंबर- 1800-212-5512 & 1967, लैंडलाइन नंबर -0651-712-2723, सुबह १० से शाम ५ बजे (सोमवार से शनिवार)

Track current status of your Complaint / अपनी शिकायत की वर्तमान स्थिति को ट्रैक करें

Complaint Number / शिकायत संख्या : 156005 Complainant Name / शिकायतकर्ता नाम : sneha
Complaint Date / शिकायत की तारीख : 2021-03-20 Complaint Subject / शिकायत विषय : Test Complaint
Complaint Status / शिकायत स्थिति : Pending Supporting image/audio / सहायक छवि / ऑडियो :
Complaint / शिकायत : test

अपनी स्पष्टीकरण जोड़ें

Show 5 entries

Search:

Clarification / स्पष्टीकरण	Date / तारीख	Time / समय	User / उपयोगकर्ता	Supporting image /audio (सहायक छवि / ऑडियो)
यह शिकायत जांच हेतु Others को भेजी गयी है।	2021-03-20	11:22:33	Project Director	Not available

Showing 1 to 1 of 1 entries

First Previous Next Last

"अपना स्पष्टीकरण जोड़ें" बटन पर क्लिक करते ही यह स्क्रीन खुलेगा। यहाँ आप अपनी शिकायत पर प्रतिक्रिया देने के लिए "Clarification / स्पष्टीकरण" लिखें / साथ ही Choose File / Browse बटन पर क्लिक कर अपनी शिकायत से संबंधित कोई इमेज या ऑडियो भी अपलोड कर सकते हैं। फिर "Save" button पर Click करें।

Track current status of your Complaint

Complaint Number / शिकायत संख्या :
Complaint Date / शिकायत की तारीख :
Complaint Status / शिकायत की स्थिति :
Complaint / शिकायत :

अपनी स्पष्टीकरण जोड़ें

Show 5 entries

Clarification / स्पष्टीकरण

Clarification / स्पष्टीकरण	Date / तारीख	Time / समय	User / उपयोगकर्ता	Supporting image /audio (सहायक छवि / ऑडियो)
यह शिकायत जांच हेतु Others को भेजी गयी है।	2021-03-20	11:22:33	Project Director	Not available

Showing 1 to 1 of 1 entries

First Previous Next Last

इस Page पर अपने सुझाव देने के लिए "आपके सुझाव" बटन पर क्लिक करें।

1800-212-5512 & 1967 | pgms@dicajharkhand.in

1800-212-5512 & 1967, सुबह 10 से शाम 6 बजे (सोमवार से शनिवार)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार

आपके सुझाव

लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (PGMS)

झारखण्ड सरकार आपके द्वार

जनहित में कॉल सेंटर के माध्यम से लागू की गई PGMS योजना में राज्य की जनता, निम्न विषयों से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है।

PHH / AAY कार्ड बनवाने एवं नाम जुड़वाने से संबंधित	सकैद कार्ड बनवाने, नाम जुड़वाने एवं रद्द कार्डों से संबंधित	वीन कार्ड बनवाने एवं नाम जुड़वाने से संबंधित
विद्यार्थी NAC पोर्टल से संबंधित	बयोमेट्रिक मशीन (e-poS) से संबंधित	राशन कार्ड की प्रतियों में ग़ुमर से संबंधित
DBTK से राशन प्राप्त नहीं होने के सम्बन्ध में	भाप - टोल से संबंधित	धान अडिवापन से संबंधित
पदाधिकारी के विरुद्ध शिकायत	ईलर के विरुद्ध शिकायत	ग्रैलर द्वारा दर्ज की गयी शिकायत
राशन कार्डधारियों को राशन की कमी से संबंधित	AAV/PHH राशन कार्ड रद्द करने के सम्बन्ध में	राशन कार्डधारियों अथवा अभाव से संबंधित
DSD टूलपोर्ट के विरुद्ध	एच एच एफ राशन कार्ड योजना से संबंधित	राशन कार्डधारियों को राशन नहीं मिलने के सम्बन्ध में
कोई सड़की योजना से संबंधित	घर - भूत योजना से संबंधित	राशन उन्नयन से संबंधित बैकड्रॉपर SMS आने के सम्बन्ध में
मूजमंकी पैट्रोल सार्विही योजना से संबंधित	क्रिजिटल भार मासिक वंच से संबंधित शिकायत	फोटोपेपर चाल से संबंधित

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले से संबंधित अन्य शिकायतें

राज्य के नागरिक निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क कर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

Toll-Free No. 1967 & 1800-212-5512

Email pgms@dicajharkhand.in

896-958-3111

Website pgms.dicajharkhand.in

Public Grievance Management System (PGMS)

श्री हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

श्री इरफान अंसारी
मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता
मामले विभाग, झारखण्ड सरकार

PGMS पोर्टल की अभूतपूर्व उपलब्धियों की गैलरी

बधाई व शुभकामनाएं..!!

"आपके सुझाव" बटन पर क्लिक करते ही यह स्क्रीन खुलेगी। मागें गए विवरण को भरने के पश्चात "सबमिट करें" बटन पर क्लिक करें।

 टोल फ्री नंबर- 1800-212-5512 & 1967, लैंडलाइन नंबर -0651-712-2723, सुबह १० से शाम ५ बजे (सोमवार से शनिवार)

 आपके सुझाव

नाम : Name / नाम

संपर्क नंबर : Contact Number / संपर्क नंबर

ईमेल : Email / ईमेल

सुझाव : Suggestion / सुझाव

(अधिकतम 2000 वर्ण) (अंग्रेजी के लिए दबाएँ ctrl+g)

No file chosen

कैप्चा अंकित करें *

CAPTCHA WORDS

5 6 0 9 